

प्रेस नोट दिनांक 01.11.2020

आज दिनांक 01.11.2020 को समय प्रातः11:00 बजे श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर एवं श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में हाईड्रिल तिराहा थाना व जनपद सिद्धार्थनगर से पुलिस प्रशासन के समस्त अधिकारीगण की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर यातायात माह नवम्बर का शुभारम्भ किया गया, एवं सभी लोगों से ट्रैफिक नियमों का अनुपालन एवं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाने तथा हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाकर तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करने की हिदायत दी गयी एवं शराब पीकर वाहन न चलाने एवं ओवर स्पीड तथा लापरवाहीपूर्वक वाहन न चलाने की हिदायत दी गई।

प्रेस नोट दिनांक :-01.11.2020

10000/- रुपया पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार।

आज दिनांक 01.11.2020 को श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर मय उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार राय, उ0नि0 श्री अजीत कुमार, हे0का0 आनन्द कुमार, का0 पवन कुमार मौर्या को मुखबिर की सूचना पर सम्बन्धित मु0अ0सं0 28/2020 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त राम नयन पासवान पुत्र स्व0 रामबरन पासवान सा0 मंगलपुर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज जो सोने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी था जो उक्त मुकदमे में लगभग 08 माह से वांछित चल रहा था एवं लगातार फरार चल रहा था। जिसके विरुद्ध एनबीडब्लू व धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा चुकी थी। जबकि गिरफ्तारी हेतु बार-बार दबिश देने पर भी फरार मिलता था। जिस पर 10000/- रुपये का इनाम घोषित था। विवेचना श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही थी। जिसे आज ककरही नहर के पास घेरा बन्दी कर पकड़ लिया गया। तथा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार इनामिया अभियुक्त का विवरण –

राम नयन पासवान पुत्र रामबरन सा0 मंगलपुर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

- 1- एसओ आलोक कुमार श्रीवास्तव
- 2- उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार राय
- 3- उ0नि0 अजीत कुमार
- 4- हे0का0 आनन्द कुमार
- 5- का0 पवन कुमार मौर्या

आज दिनांक 01/11/2020 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र नई किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 03 परिवारों को बिखरने से बचाया गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 01/11/2020 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र /नई किरण का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 12 पत्रावली या विचार प्रस्तुत हुई जिसमें 10 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। परामर्श के बाद 03 पत्रावलियों का सफल निस्तारण संभव हुआ। परामर्श के मुख्य परामर्शदाता, श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, श्री विनय कांत मिश्रा, श्री शमशुल हक का सराहनीय योगदान रहा। निस्तारण में श्रीमती मंजू सिंह, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना, महिला मुख्य आरक्षी सरोज माला, महिला आरक्षी कंचन सिंह, महिला आरक्षी सविता सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण-

1. सुशीला पत्नी राजेश निवासी सेमरा कलां थाना उस्का बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
2. किरन पत्नी सोनू निवासी बचंगंगपुर (मोतीपुर) थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज।
3. संगीता पत्नी स्व. प्रमोद निवासी चेतिया थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक- 01.11.2020

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा की गई कार्यवाही में 12 शोहदे पकड़े गये।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा आज जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 12 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के क्रम में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 01.11.2020 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानो की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 12 शोहदे पकड़े गये। शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गांवो तथा विद्यालयो में जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसके अंतर्गत आज जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाईन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा के सम्बन्ध जानकारी दी गयी।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती संध्यारानी तिवारी प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02-आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04-महिला आरक्षी अमिता पटेल एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- महिला आरक्षी रिनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06- विभिन्न थानो पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 01.10.2020 थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 01.10.2020 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर के आदेश पर व श्री माया राम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री अजय श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान में श्री शमशेर बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना गोलहौरा के नेतृत्व में थाना गोलहौरा पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 172/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत समीर पुत्र रफीक निवासी बराव नान कार थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर को एक आदद चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया ।

